

विक्टोरिया की सरकार का विक्टोरियन एनर्जी अपग्रेड कार्यक्रम मान्यता प्राप्त प्रदाताओं के माध्यम से विक्टोरिया के घर-परिवारों को छूट प्राप्त ऊर्जा-कुशल उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

यह पारंपरिक घरों में लगभग 150 डॉलर प्रति वर्ष की बचत कर सकता है और आपके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बचत काफी अधिक हो सकती है।

उदाहरण के लिए, बिजली से पानी गर्म करने के सिस्टम पर सौर किट स्थापित करने से प्रति वर्ष औसतन 800 डॉलर की बचत होगी।

में कैसे शामिल हो सकता/सकती हूँ?

कार्यक्रम द्वारा कवर किए गए और ऐसे उत्पादों और स्थापना सेवाओं का ऑफ़र देने वाले मान्यता प्राप्त प्रदाताओं का पता लगाने के लिए हमारे उत्पाद पृष्ठ पर जाएं। सभी मान्यता प्राप्त प्रदाता आवश्यक सेवा आयोग के साथ पंजीकृत हैं।

विक्टोरियन एनर्जी अपग्रेड कैसे मेरे परिवार और समुदाय की मदद करेगा?

- आपके परिवार को ऊर्जा बचत उत्पादों पर छूट मिलेगी
- ये ऊर्जा लागत को कम रखने में मदद करते हैं
- विक्टोरियन एनर्जी अपग्रेड के प्रतिभागी बिजली के बिलों पर औसतन 150 डॉलर बचा सकते हैं
- सर्दियों में अपने घर को गर्म रखकर और गर्मियों में ठंडा करके बेहतर स्वास्थ्य लाभ पाएं
- वातावरण में प्रवेश करने वाली ग्रीनहाउस गैस की मात्रा को कम करना

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले परिवारों और व्यवसायों से समुदाय के लिए भी व्यापक लाभ हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ने पर, ऊर्जा प्रणाली पर लगाए गए बोझ को कम करके हमारी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना
- वातावरण में प्रवेश करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने वाली ग्रीनहाउस गैस की मात्रा को कम करना
- ऊर्जा-गहन, उच्च-उत्सर्जन प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करके, विक्टोरियन को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।

विक्टोरियन एनर्जी अपग्रेड कार्यक्रम क्यों स्थापित किया गया था?

कार्यक्रम विक्टोरिया के परिवारों और व्यवसायों के लिए ऊर्जा बचत उत्पादों को खरीदने और विक्टोरिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है, जो बहुत सस्ता है।



विक्टोरिया की सरकार ऊर्जा खुदरा विक्रेताओं के लिए वार्षिक ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करती है।

इन लक्ष्यों को कई खुदरा प्रमाणपत्र खरीदने के लिए ऊर्जा खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रमाणपत्र वातावरण में प्रवेश करने से रोकी जाने वाली एक टन ग्रीनहाउस गैस का प्रतिनिधित्व करता है।

जब वे ऊर्जा कुशल उत्पादों को बेचते हैं, तो प्रमाणित व्यवसायों द्वारा प्रमाणपत्र बनाए जाते हैं।

प्रमाणपत्रों का फिर मुक्त बाजार में कारोबार किया जाता है।

मान्यता प्राप्त प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध उत्पाद

- लाइटिंग
- हीटिंग और कूलिंग
- वाटर हीटिंग
- टेलीविजन
- रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर डिस्पोजल
- रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर
- शॉवर हेड्स
- मौसम अनुसार सीलिंग और इन्सुलेशन
- स्टैंडबाय पावर नियंत्रक
- इन-होम डिस्प्ले
- पूल पंप
- क्लॉथ ड्रायर



अगर आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद और व्याख्या में मदद के लिए Translating and Interpreting Service (TIS) से संपर्क करें। TIS National से 131 450 (ऑस्ट्रेलिया में) पर संपर्क करें या www.tisnational.gov.au पर जाएं।